



# RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LIMITED

Date: July 19, 2022

**BSE Limited,**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001

**National Stock Exchange of India  
Limited,**

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai 400 051

**Scrip Code: 503162**

**Trading Symbol: RELCHEMQ**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Intimation of Notice published in newspaper under Investor Education and Protection Fund (IEPF) Rules- Transfer of shares to IEPF**

---

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose the following documents:

- I. Copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jai Rajasthan (Hindi)
- II. Copy of reminder letter to the shareholders

The above reminder letters were sent to the shareholders who have not claimed their dividends for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to IEPF Authority.

This is pursuant to Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

The above information is also available on the website of the Company [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com).

This is for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Reliance Chemotex Industries Ltd.**

  
**Utkarsh Gaur**  
**Company Secretary & Compliance Officer**



Encl: As above

RELATIVELY SLOWER DEPOSIT GROWTH

# Mid-sized lenders try diverse ways to meet credit demand

Most focus on raising fresh deposits, a few shed excess holdings of govt securities

SHRITAMA BOSE  
Mumbai, July 18

SMALLER PRIVATE LENDERS are using different strategies to meet an increased demand for credit in an environment of relatively slower deposit growth.

While most banks are focusing on raising fresh deposits with the help of interest rate hikes, a few are shedding excess holdings of government securities to cater to loan demand. Non-food credit grew 13.8% year-on-year (y-o-y) and deposits grew 9.8% y-o-y during the fortnight ended July 2, as per data released by the Reserve Bank of India (RBI). The overall credit-deposit (C/D) ratio for some banks has crossed 80%.

N Kamakodi, managing director & CEO, City Union



The overall credit-deposit ratio for some banks has crossed 80%

Bank, said that the difference between credit and deposit growth rates is small and hardly poses a challenge. "For our bank, we can lend up to ₹3,000 crore even without a single rupee of fresh deposits. At the same time, we are focused on our branch network to boost deposit growth, we have hiked domestic deposit rates and we'll also consider raising rates on NRI (non-resident Indian) deposits," he said.

The RBI's decision to temporarily remove interest rate

Non-food credit grew 13.8% y-o-y and deposits grew 9.8% during the fortnight ended July 2, as per RBI data

Bankers said a fall in the landed cost of foreign currency deposits will help lenders with a presence in states that have sizeable diasporic populations

caps on incremental foreign currency non-resident (bank [FCNR(B)] and non-resident (external) rupee (NRE) deposits, and exempt them from the maintenance of cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) is helping banks attract more money from their NRI clients. This relaxation will be available for deposits mobilised up to November 4, 2022. Bankers said that a fall in the landed cost of foreign currency deposits will help lenders with a pres-

ence in states like Gujarat, Kerala and Punjab, which have sizeable diasporic populations. BK Divakara, chief financial officer, CSB Bank, ruled out the possibility of banks facing asset-liability mismatches as deposits are not the only route for fund mobilisation. "Most banks are holding surplus SLR securities far higher than mandated. Now that demand for bank credit has come back, banks have started realising these surplus securities and funding the credit demand," he said. Apart from deposits, banks have other options for raising resources, such as capital funds and refinance, Divakara added.

Public sector bankers said their institutions are comfortably placed in terms of liquidity. "We don't feel the need for aggressive rate hikes, but some of the smaller private banks may have to take that route in the current environment," said a senior executive with a mid-sized state-owned bank. This may not be the best time to sell bonds as market yields are trending upwards, he added.

# Pune Airport set to get retail, co-working centre

PUNE AIRPORT IS all set to get a first-of-its-kind retail and co-working centre. The 208,000 sq ft AeroMall is slated for launch on October 15.

AeroMall has been developed by Pebbles Infra-Tech, while Anarock has designed the complex, managed its development and its tenancy mix. Mayank Sharan, director, Anarock Retail, said the new Pune Airport retail and co-working complex was being carried out under the PPP model with the Airports Authority of India (AAI), with development being carried out exclusively by Pebbles Infra-Tech.

Pune Airport is a civil enclave operated by the AAI alongside the Lohegaon Air Force Station. The airport handled 8 million passengers even

during the pandemic year of 2020. The airport's new integrated terminal building, which has so far cost over ₹475 crore, will be capable of processing 2,300 passengers even at peak hours.

As an independent development, AeroMall is unique because it eliminates the usual restrictions of airport retail and gave retailers a full-fledged shopping mall environment. "What makes this mixed-use complex at Pune Airport unique is that it will serve passengers and is also an independent retail and co-working destination," Sunil Nahar, director, Pebbles Infra-Tech, said. Pebbles Infra-Tech is in talks to finalise a co-working operator to run the centre beginning mid-October. **FE BUREAU**

VOTING RESULTS FOR WEEK STARTING JULY 8

# Institutional investors dissent resolutions of Delhivery, Havells India, shows data

RAJESH KURUP  
Mumbai, July 18

INSTITUTIONAL INVESTORS DISSENTED four resolutions each of supply chain firm Delhivery and electrical goods company Havells India, with more 50% of votes cast, even as they supported 89 motions with 100% majority. Further, they also supported 26 motions with over 99% of votes polled.

Delhivery's resolutions, all employee stock option plans, were voted against with 72% of institutional shareholders' votes. The motions of Havells India, all of them employee stock-purchase schemes, were voted with upwards of 50% votes, according to data compiled by proxy advisory firm Institutional Investor Advisory Services India (IIAS).

A whopping 100% of institutional investors voted against Milkfood's motion seeking shareholders' approval for the merger of Triputi Infrastructure with the company. Butterfly Gandhimathi Appliances' resolution for payment of commission to independent directors was dissented with 66.8% and that of Raymond to appoint a non-executive non-independent director was voted against with 58.1% of institutional shareholders' votes.

However, all resolutions were approved by the total votes cast by shareholders (including promoters and others), IIAS, which analysed AGM and postal ballot data for the seven-day period starting from July 8, said.

Institutional investors dissented another 11 resolutions with more than 25% of their votes, including that of Motilal Oswal Financial Services, Steel Authority of India, Raymond and IIFL Finance,

among others. The motions ranged from appointment of directors, approval of commission payment to non-executive directors and related-party transactions, among others.

According to IIAS, institutional shareholders supported 89 resolutions with a whopping 100% majority. These

included Raymond (issuance of non-convertible debentures), South Indian Bank (various resolutions), Larsen & Toubro Infotech and BSE (dividend), Mindtree (including reappointment of AM Naik as non-executive non-independent director) and Tata Steel Long Products (various resolutions), among others.

Sr No.	Name & Address	Locker No.	Locker Open Dt.	Locker Last Operate Dt.	Final Reminder Sent Through Regd. AD on	Overdue Amt
1	Sushma Atul Mehta 501 Shilpa West Ave Santacruz West Mumbai 400054	GC269	13.03.2007	02.09.2016	28.12.21	27444/-
2	Shamsha Amin Budhwani 41 B Florida Apts 33 Mount Mary Road, Bandra West 400050	GK793	09.03.2006	04.06.2015	28.12.21	30299/-
3	Masuma W Khan 5 Scarlet Bldg 1st Floor 270B Carter Road Bandra Mumbai 400050	GL324	06.10.2006	11.08.2015	28.12.21	27415/-
4	Felix R Fernandes GM Salves Estate Chinchpokali Road Bandra West Mumbai 400050	GL919	27.04.2006	18.06.2014	28.12.21	30359/-
5	Maureen Dsouza Lubina Flat no 276 Prof Almeda Road Bandra Mumbai 400050	GL906	04.08.2006	21.11.2013	28.12.21	20743/-
6	Jasmine N Patel 23 Dist Floor Khoramshahi Baug Hill Road Bandra	GL904	01.11.2006	06.09.2016	28.12.21	27672/-
7	Lalita V Iyer Donum DEI Plot no 16 TPS IV Bandra west Mumbai 400050	GI730	01.09.2011	08.02.2015	18.12.21	23355/-
8	Kamruddin S Parmar MT Mary APT Flat no 101 St Peter Dias Road Bandra West Mumbai 400050	GF554	25.02.2006	01.07.2015	28.12.21	30347/-
9	Akbar Shiji Hooda Mount Nes HSG SOC Hill Vies no 3 2nd Floor Flat no 4 Hill Road	GF548	18.05.2006	27.03.2016	28.12.21	30521/-
10	Mid Talha Qureshi Kashimath Bldg Room No 26 Cadell Road Mahim 16	GF539	20.11.2005	23.06.2015	28.12.21	30370/-
11	Sanjeev Safar Neelmarth 4th Floor 109, Carter Rd Bandra Mumbai 50	GF514	01.05.2006	29.07.2013	28.12.21	30336/-
12	Rai Chopra 4 Gautam APTS Pali Hills Bandra west Mumbai 400050	GF502	05.08.2006	20.08.2014	28.12.21	20743/-
13	Hari Ramanik Vensimal Plot No 50/116th Road Khar west	GF501	11.10.2009	07.04.2016	28.12.21	28541/-
14	Khatya H Vazir ali Shesh Mahal CHS Pali Hill Road Mumbai 400050	GF587	15.07.2008	06.10.2014	28.12.21	55235/-
15	Pushpa Kumar Mrs Rani Seamist 3rd floor Manuel Gonvalves road Bandra Mumbai 400050	GF561	19.04.2009	22.03.2015	28.12.21	70429/-
16	Sayed Mohsin G-22 247 E Manaur Baba Lane Durga Gali S V R D Bandra West Mumbai 50	GD433	13.09.2006	25.02.2015	28.12.21	27842/-
17	Iqbal S Jafferbhoy 9A Rabello Road Bandra West Mumbai 400050	GB242	15.10.2005	22.04.2014	28.12.21	30147/-
18	Manjushree Singh Jolly High Rise B BLDG Flat No D04 Palimala RD Bandra West	GH697	07.05.2007	04.08.2016	28.12.21	27707/-
19	Kabir Rehantulla 14/B Balmoral APTS 7th Mount Mary Hill Road Bandra Mumbai 400050	GH681	13.01.2006	20.09.2013	28.12.21	30657/-
20	Sakina Abid Hardawala 34, Water Field Road Bandra Mumbai 400050	GH667	23.11.2005	11.12.2014	28.12.21	30571/-
21	M J Qureshi Reg Annex Besides Canossa Convent School Mahim, Mumbai 400016	GH651	01.09.2007	10.06.2016	28.12.21	27440/-
22	H B Nawab 18/54 MHB Colony Bandra Reclamation West Mumbai 400050	GE486	26.04.2006	06.09.2015	28.12.21	30636/-
23	Durothy Pires 303 OB Cross Road Lokhandwala Complex Andheri Mumbai 400053	GC353	31.08.2006	21.03.2015	28.12.21	30094/-
24	Jamila Abdul Merchant 7520 New Kartwadi Road Baitachor Bandra West Mumbai 400050	GE443	20.04.2006	25.07.2016	28.12.21	30662/-
25	Shashikant M Desai 10 Anand Villa V P Road Santacruz, West Mumbai 400054	GC334	28.08.2006	29.05.2014	28.12.21	30084/-
26	Lily M Buchan 12 Chapel Road Dr Peter Dias Road Bandra Mumbai 400050	GC301	26.04.2006	15.11.2013	28.12.21	30358/-

Date: 19/07/2022  
Place: Mumbai  
Sd/-  
Authorised Officer  
UNION BANK OF INDIA

**RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LTD.**  
Registered Office: Village Kanpur, Post Box No. 73, Udaipur, Rajasthan, 313 003  
CIN: L40102RJ1977PLC001994  
Tel: +91 (0) 294 2491489; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2900607  
E-mail: cs@reliancechemotex.com | Website: www.reliancechemotex.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**  
Transfer of Equity Shares of Reliance Chemotex Industries Ltd. ("Company") to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended to date, Equity Shares of the Company in respect of which dividend amount has not been paid / claimed by Shareholders for seven consecutive years or more are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In accordance with the IEPF Rules 2016, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid/ claimed for the last 7 (seven) consecutive years, have to be transferred to the demat account of IEPF Authority.

The company has already sent individual Notices at the latest available address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for last 7 (Seven) consecutive years, advising them to claim the dividend expeditiously. The details of shareholders (including their Name, Folio Nos., DP ID/ Client ID, etc.) to whom communication has been sent along with the details of dividend pertaining to them is available on the company's website i.e. <http://www.reliancechemotex.com/reports/financial-reports/>

In this connection, please note the following:

a) **In case you hold Shares in physical form:** The company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in the DEMAT accounts opened by the IEPF authority with NSDL and CDSL. Upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

b) **In case you hold Shares in electronic form:** The transfer of shares to DEMAT account of IEPF authority as indicated herein above shall be effected by the company through the respective depositories by way of corporate action.

In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th October 2022, the company shall, with a view of complying with the requirement set out in the IEPF Rules 2016, transfer the Equity Shares to IEPF Authority without any further notice.

Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back to IEPF authority as per the procedures prescribed under the IEPF Rules 2016. For any clarification on this matter shareholders may contact to Registrar and Share Transfer Agent, Big Shares Services Private Limited, S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, Tel: 022-62638200/210 or Mr. Utarkash Gaur, Company Secretary, at Village Kanpur, Udaipur 0294-2490488, email: id.cs@reliancechemotex.com

For Reliance Chemotex Industries Ltd.  
Utkarsh Gaur  
Company Secretary & Nodal officer  
Membership No.: A60237

Place: Udaipur  
Date: 18.07.2022

**TCPL PACKAGING LIMITED**  
CIN: L22210MH1987PLC044505  
Registered Office: Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013  
Tel: +91 22 24935893 | Email: info@tcpl.in | Website: www.tcpl.in

**NOTICE OF 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 34th Annual General Meeting (AGM) of TCPL Packaging Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 10th August 2022 at 4.00 p.m. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company situated at Empire Mills Complex, 414 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

In accordance with the General Circular No 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 02/2022 dated 5th May 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and various other Circular issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the financial year 2021-22 have been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participants (s). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on 16th July 2022. The Notice of AGM alongwith the Annual Report is also available on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on Company's website [www.tcpl.in](http://www.tcpl.in). The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing facility of voting through remote e-voting, participation in AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at [www.evoting@nsdl.com](http://www.evoting@nsdl.com).

**Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM**

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 3rd August, 2022, can cast their vote electronically through electronic voting system ("remote e-voting") of NSDL at [www.evoting@nsdl.com](http://www.evoting@nsdl.com). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 34th AGM will be transacted through voting by electronic means only.

The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Sunday, 7th August 2022 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, the 9th August, 2022. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 p.m. on Tuesday the 9th August, 2022. Once the vote on resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut off date, may obtain the login id and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). However if a person is already registered with NSDL, for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the Meeting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL. Please refer e-voting user Manuals for Members, available in the downloads section of the e-voting website of NSDL [www.evoting@nsdl.com](http://www.evoting@nsdl.com). Members who need assistance before or during the AGM may

a) send a request to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990 or  
b) contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at the designated email id: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or [amitv@nsdl.com](mailto:amitv@nsdl.com) or at telephone numbers +91 22 24994380; or  
c) contact Ms. Pallavi Mhate, Manager, NSDL at the designated email ID: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or [pallavid@nsdl.com](mailto:pallavid@nsdl.com) or at telephone number +91 22 24994545.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, the 4th August 2022 to Wednesday, the 10th August 2022, (both days inclusive)

**Manner of registering / updating email address**  
Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Link Intime India Private Limited at [nt.helpdesk@linkintime.com](mailto:nt.helpdesk@linkintime.com) along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g. Aadhar Card, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to [info@tcpl.in](mailto:info@tcpl.in).

**Manner of joining the AGM**  
The facility to attend the AGM through VC / OAVM is available through NSDL e-voting system at [www.evoting@nsdl.com](http://www.evoting@nsdl.com)

**TDS on Dividend**  
Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 at <https://linkintime.com/in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>

For TCPL Packaging Limited  
Sd/-  
S G Nanavati  
Executive Director & Compliance Officer  
DIN: 00023526

Date: 18/07/2022  
Place: Mumbai

**E-AUCTION NOTICE**  
**PROPYL PACKAGING LIMITED (in Liquidation)**  
Sale of the Assets of the Company under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

NOTICE is hereby given for the sale of assets of M/s. Propyl Packaging Limited (In Liquidation) through e-Auction process by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kochi Bench. This Company is the manufacturer of **MULTILAYER PRINTED PLASTIC PACKAGING MATERIALS**. The assets mentioned below are mainly used for this purpose.

Sl. No.	Asset	Reserve Price (INR)	EMD Amount (INR)	Incremental Value (INR)
1.	Koratty Factory : Plot - 30 & 31, KINFRA PARK, Nalukettu Road, Koratty, Thrissur District, KERALA - 680 308	2,47,00,900	20,00,000	25,000
1.a.	Leasehold Land from KINFRA (for 87 years from 08.04.2012) - 37.25 Cents in Sy. No. 682, Muringur Thekkumury Village, Mukundapadam Taluk, Thrissur District along with Office cum Factory Building admeasuring 28,000 sq. feet	2,47,00,900	20,00,000	25,000
1.b.	KABRA GLOUCESTOR Make Five Layer Blow Film Plant	3,58,66,000	20,00,000	25,000
1.c.	Gravure Printing Machine - Model RAULIMEX SUPERPRINT 1050	76,83,900	5,00,000	10,000
1.d.	Solventless Laminator - Model RAULIMEX Model RSL 1050	16,62,500	2,00,000	5,000
1.e.	Slitter Rewinder Machine - Model RAULIMEX Model RES1050	15,51,500	2,00,000	5,000
1.f.	Unipower 1000KVA Onam Transformer, Perkins 750KVA Diesel Generator, Socomec Delphys MX Elite 300 KVA UPS With DC Power Pack and Electrical Installations.	27,55,400	2,00,000	5,000
1.g.	Industrial Lift, Weighing Machines, Air Compressors, Material Handling Equipments, Air Conditioners, Computers, Testing Equipments, Wood Fired Thermo Fluid Heater, Cooling Tower, Furniture, Fire Safety Systems.	7,15,900	50,000	25,000
1.h.	Prasad Koch (Brine Chiller, Water Chiller and Air Drier) and Corona Treater.	24,18,600	1,00,000	50,000
1.i.	Plastic Granules (loose bags) LLDPE, LDPE, HDPE, Nylon, Masterbatch-4 MT	1,60,000	25,000	10,000
2.	Kodungalur Factory : Ala, Opp.Ala Temple, Kodungalur, Thrissur District, KERALA - 680 666	1,75,18,400	5,00,000	50,000
2.a.	Freehold Land 24 Cents in In Sy. No. 111/6 and 111/9, Ala Village, Kodungalur Taluk, Thrissur District along with Factory building admeasuring 6,563 sq. feet. (Total area of land is 33 cents out of which 9 cents having road frontage acquired by NHAI for road widening.)	1,75,18,400	5,00,000	50,000
3.	Combotore Factory : Plot 126, SIDCO Industrial Estate, Mallimichampetty, Combotore, TAMIL NADU - 641 050	92,17,500	2,50,000	50,000
3.a.	Freehold land 25 60 Cents in SF No.405 and 406 in Malumchappatti Village, Combotore South Taluk in Combotore District along with Factory building admeasuring 5,300 sq. feet	92,17,500	2,50,000	50,000
3.b.	Eight Colour Rotogravure Printing Machine, Dry Lamination Machine, Pouch Making Machines, Slitter Machine, Sealing Machine, 100 KVA Generator, Air Compressors, Material Handling Machine, Weigh Scale, Electrical Installations and Furniture and Fittings.	24,22,900	1,00,000	10,000
4.	Pardi Factory : Shed J5, GIDC, Killa Pardi, Pardi, Valsad District, GUJARAT - 396 125	22,58,000	2,00,000	10,000
4.a.	Three Layer Blow Film Plant Model Kabra KET34955 with Prasad Koch Water Chiller and Corona Treater.	22,58,000	2,00,000	10,000
4.b.	Four Colour NISSI Rotogravure Printing Machine and Slitting Rewinding Machine NISSI Sliit-2000	6,55,200	1,00,000	5,000
4.c.	315 KVA Transformer, Electrical Installations, Furniture and Fittings and Rotogravure Printing Circuits, Printed Films.	3,56,900	50,000	5,000

**Notes:** The sale of assets through E-auction will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATSOEVER THERE IS BASIS"

Other Details :  
Date and Time of E auction : 10.08.2022 from 02:00 PM till 4:00 PM  
Last Date for Submission of Bids : 06.08.2022  
Application along with EMD :  
E-auction Portal : <https://mbid.nesl.co.in/>

For details, please contact the Liquidator at Mobile No. +91 7012903235  
Email : [geovaktm@gmail.com](mailto:geovaktm@gmail.com) Sd/-  
George Varkey  
Liquidator of Propyl Packaging Limited  
Date : 19.07.2022  
Address : Building No.110, Ground Floor, Surabhi Nagar, Kakkand, Kochi, Kerala-682030  
Mobile No. +91 7012903235 ; Email ID : [geovaktm@gmail.com](mailto:geovaktm@gmail.com)

**RESPONSIVE INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: L65100MH1982PLC027797  
Regd. Office: Beteagaon, Mahagaon Road, Boisar (East), Taluka Palghar, Dist. Thane - 401501 | Tel. No.: 022-66562821 | Fax No.: 022-66562798  
E-mail: [investor@responsiveindustries.com](mailto:investor@responsiveindustries.com) | Website: [www.responsiveindustries.com](http://www.responsiveindustries.com)

**NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

1. Notice is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Responsive Industries Limited, will be held on **Tuesday, August 09, 2022 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as set out in the Notice of the EGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules framed thereunder and General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021, 2/2022 and 3/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 respectively (collectively referred to as the MCA Circulars) and the SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD/13/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2021 and January 15, 2021, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as SEBI Circulars) without the presence of the Members at the common venue.

2. In compliance with above MCA Circulars and SEBI circulars, the Company has sent the Notice of the EGM on **Monday, July 18, 2022** through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories as on Friday, July 15,





# Reliance Chemotex Industries Ltd.

Registered Office: Village Kanpur, Post Box No.73, Udaipur, Rajasthan, 313003

CIN: L40102RJ1977PLC001994

Tel: +91 (0) 294 2491489 ; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2490067

E-mail: [cs@reliancechemotex.com](mailto:cs@reliancechemotex.com) | Website: [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com)

REF : BSS/RELIANCE/IEPFSHARES/

Date: 16.07.2022

Name of the Member :

Ref.: Folio No./DPID/ Client ID:

Dear Member(s),

**Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

As you are aware, dividend declared by the Company is remitted either electronically or by sending dividend warrants to the registered address of the eligible shareholders.

As per Section 124 (5) of the Companies Act, 2013, all unpaid or unclaimed dividends for a period of seven years are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. We regularly upload on our website as also on the website of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, full details of such unpaid or unclaimed dividends before transferring to IEPF.

Further, Section 124 (6) requires that all shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred to IEPF, shall also be transferred to IEPF. Ministry of Corporate Affairs has notified Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 [Rules] which have come into force from September 7, 2016. The said Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which Dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of IEPF.

As per the records, you have not en-cashed your dividends for seven continuous years and accordingly, in terms of the above Rules, your shares are liable to be transferred to IEPF. You are requested to immediately claim your unpaid dividends and avoid the transfer of your shares to IEPF by sending following documents to us or to Bigshare Services Private Limited., Registrar and Transfer Agents (RTA) of the Company at the address mentioned in this letter, before 30/10/2022.

As per the above mentioned rules, shares held in physical form are liable to be transferred to IEPF, by issuing duplicate share certificates and upon issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable. In case the shares are held in demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company will give Delivery Instruction Slip to the Depository for transfer of shares to IEPF.

However, you can claim from IEPF Authority both unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF by making an application in Form IEPF-5 online and send the physical copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its Registered Office or to Bigshare Services Private Limited, RTA of the Company for verification of your claim. We shall send a verification report to IEPF Authority for refund of the unclaimed dividend amount and transfer of the shares back to the credit of the shareholder.

In case we do not hear anything from you on this intimation letter before 30/10/2022, we shall, with a view to comply with the requirements of the said Rules, transfer the shares to IEPF as per procedure stipulated in the Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Please feel free to contact the Company/Bigshare Services Private Limited in case you have any queries at the following address / email / telephone number:

**Reliance Chemotex Industries Ltd.**

Regd. Off: Village Kanpur, Post Box No.73, Udaipur, Rajasthan, 313003  
Phone: +91 (0) 294 2491489 ; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2490067  
Email: [cs@reliancechemotex.com](mailto:cs@reliancechemotex.com), Website: [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com)

**Bigshare Services Private Limited**

Office No S6-2 | 6th floor, Pinnacle Business Park |  
Next to Ahura Centre| Mahakali Caves Road |  
Andheri (East) |Mumbai - 400093| India  
Mumbai 400059,  
Board No. : 022-6263 8200 Direct No: 022-62638205/7045454396  
Email - [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com)

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Reliance Chemotex Industries Ltd.

Sd/-  
Utkarsh Gaur  
Company Secretary & Nodal Officer